



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 चैत्र 1940 (श०)

(सं० पटना 263) पटना, शुक्रवार 23 मार्च 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

23 मार्च 2018

एस०ओ० 156, दिनांक 23 मार्च 2018— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा—164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार—राज्यपाल, 1 अप्रैल, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिससे बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 185 दिनांक 7 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० एस. ओ. 148 दिनांक 7 मार्च, 2018 के नियम 2 के उप-नियम (ii) [खंड (7) के सिवाए], उप-नियम (iii), उप-नियम (iv), उप-नियम (v), उप-नियम (vi) और उप-नियम (vii) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/जीएसटी/विविध—21/2017(खंड—I)—837)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त।

23 मार्च 2018

एस०ओ० 156, दिनांक 23 मार्च 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/जीएसटी/विविध—21/2017(खंड—I)—837)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त।

***The 23<sup>rd</sup> March 2018***

S.O. 156, dated 23<sup>rd</sup> March 2018—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby appoints the 1<sup>st</sup> day of April, 2018, as the date from which the provisions of sub-rules (ii) [other than clause (7)], (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of rule 2 of notification No. S.O. 148 , dated the 7<sup>th</sup> March, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 185, dated the 7<sup>th</sup> March, 2018, shall come into force.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017(Part-I)-837)]

By order of the Governor of Bihar,

DR.PRATIMA,

*Commissioner Commercial Taxes.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 263-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>